



विदेह १२ अंक १५ अक्टूबर २०११ अंक ४
 अंक ४६ अंक १२

विदेह

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
 २. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

३. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

४. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
 ५. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

६. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

७. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
 ८. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

९. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

१०. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
 ११. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथवा यैशिनो पौष्किक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

२०६० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११
२०११

२०७० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११
२०११

२०८० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११

३०

३०९० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११
२०११

३०२० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११
२०११

३०३० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११
२०११

३०४० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११

३०५० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११

३०६० म अक्टूबर १५ तः ३० तः २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३०७०३० पृ. सं. पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

३०८०३० पृ. सं. पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

४० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
२० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
५० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

५० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
५० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

६० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
२० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

७० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
६० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
१०० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२
१०० पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२ पत्रिका सं. १२

५
५ ५ ५

५
५

बिहार विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

खंक्राम् ISSN 2229-547X VIDEHA

.....

..

.....

.....

.....

.....

..

.....

.....

.....

.....

..



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय सहकार

मैथिली भाषा के विकास के लिए हमें एक-दूसरे को समर्थन देना चाहिए।
हमारे समाज में जो लोग शिक्षा के माध्यम से अपने आपको सशक्त बनाते हैं,
वे ही अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
हमारे लक्ष्य है कि हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से
एक नए युवा शक्ति के उदय को देख सकें।

हमारे समाज में जो लोग शिक्षा के माध्यम से अपने आपको सशक्त बनाते हैं,
वे ही अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
हमारे लक्ष्य है कि हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से
एक नए युवा शक्ति के उदय को देख सकें।

हमारे समाज में जो लोग शिक्षा के माध्यम से अपने आपको सशक्त बनाते हैं,
वे ही अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
हमारे लक्ष्य है कि हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से
एक नए युवा शक्ति के उदय को देख सकें।

हमारे समाज में जो लोग शिक्षा के माध्यम से अपने आपको सशक्त बनाते हैं,
वे ही अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
हमारे लक्ष्य है कि हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से
एक नए युवा शक्ति के उदय को देख सकें।

१५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११
संस्करण: ११ अंक १२ २०११
संस्करण: ११ अंक १२ २०११
संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११
संस्करण: ११ अंक १२ २०११
संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११

संस्करण: ११ अंक १२ २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानसीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

₹९९३
₹९९५

..... **५** **२००५**
₹१६ **₹ ९५०** **६८ ०७२**
३ २५ २३६

.....

२५
२५१
२५२
२५३

बिहार विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२०४५

२०५५

२०६५

२०७५

२०८५

२०९५

२१०५

२११५



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्त ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह मासपत्रिका बिहार के एक मात्र मैथिली पारिभाषिक मासिक है। यह पत्रिका बिहार के साहित्य, समाज, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में लेखों, कविताओं, चित्रों, प्रयोगों आदि के माध्यम से बिहार के विकास और प्रगति के लिए एक प्रतिबद्ध है।

विदेह मासपत्रिका बिहार के एक मात्र मैथिली पारिभाषिक मासिक है। यह पत्रिका बिहार के साहित्य, समाज, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में लेखों, कविताओं, चित्रों, प्रयोगों आदि के माध्यम से बिहार के विकास और प्रगति के लिए एक प्रतिबद्ध है।



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरेन्का

ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



२०१९ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

माधुषिंह

खरकूतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

Main body of text, consisting of multiple lines of content in Maithili script, which appears to be a collection of poems or literary works. The text is arranged in a vertical column format.



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

खंक्राम ISSN 2229-547X VIDEHA

Main body of the page containing a large amount of text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through.



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
1. संपादन विभाग
2. लेखक विभाग
3. ग्राहक विभाग
4. वित्त विभाग
5. प्रकाशन विभाग
6. प्रचार विभाग
7. पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
8. लेखक विभाग
9. ग्राहक विभाग
10. वित्त विभाग
11. प्रकाशन विभाग
12. प्रचार विभाग
13. पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
14. लेखक विभाग
15. ग्राहक विभाग
16. वित्त विभाग
17. प्रकाशन विभाग
18. प्रचार विभाग

पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
19. लेखक विभाग
20. ग्राहक विभाग
21. वित्त विभाग
22. प्रकाशन विभाग
23. प्रचार विभाग
24. पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
25. लेखक विभाग
26. ग्राहक विभाग
27. वित्त विभाग
28. प्रकाशन विभाग
29. प्रचार विभाग
30. पत्रिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग कार्य करत छी।
31. लेखक विभाग
32. ग्राहक विभाग
33. वित्त विभाग
34. प्रकाशन विभाग
35. प्रचार विभाग



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्त ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सर्वकृष्ण

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका विदेह १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सर्वकृष्ण

ISSN 2229-547X VIDEHA

२

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

४

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in> संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

•
विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनो पात्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

•

• •



• •

• •

• •

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम यैथिनी पारिषद ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

४ ५

• •

• •

::

• •

• •

• •

• •

::

::

::





(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •



::

::

::

::

• •

UPPERCASE, lowercase, UPPER CASE, LOWER CASE, UNDERSCORE, HYPHEN, APOSTROPHE, QUOTE, BRACKET, PARENTHESIS, PERCENT SIGN, AMPERSAND, AT SIGN, STAR, HASH, DOLLAR SIGN, POUND SIGN, EURO SIGN, LIRA SIGN, YEN SIGN, BATH SIGN, DONG SIGN, KIP SIGN, WON SIGN, NEW SHELL SIGN, RUPEE SIGN, RUBLE SIGN, DRAKKA SIGN, POUND SIGN, LIRA SIGN, YEN SIGN, BATH SIGN, DONG SIGN, KIP SIGN, WON SIGN, NEW SHELL SIGN, RUPEE SIGN, RUBLE SIGN, DRAKKA SIGN

• •

::

• •

::
• •

• •



•••••

•

-
-

• **१९९६**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

बिहार विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili
Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका अ पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

००० ००००

००० ०००० ०००

०००००० ००००००००००

००० ०००००

०००

००० "००००००" ००० ०००

०००० "००००००" ०००० ०००० ००००

०००० ०००० ०००० ००००

०००० ००००

००००००००


०००००००

००० ०००० ००००० ०००० ००००००००००

• •

००

• •



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

.....

- •

...

- •

- •

- •

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

बि एन एरु विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिक ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिक ई पत्रिका

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथय दैशिनो पत्रिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

बिहार विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili
Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>



मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

-
-

-

• • • • • • • • • •

-

-

-

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

२०६८ • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

७५. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
७६. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
७७. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
७८. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
७९. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
८०. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
८१. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
८२. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
८३. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
८४. बिदेह मासपत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



१

विदेहः १९९९
१९९९

१९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९



विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili
Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००
१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १०००००



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कारक: ...
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरेन्का

ISSN 2229-547X VIDEHA

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिहार विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरेन्का

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक
'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक
'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह पत्रिका बिदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक
'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासुपिदिह

संस्कृतम् **ISSN 2229-547X VIDEHA**

उपपत्रिका

उपपत्रिका

उपपत्रिका

उपपत्रिका

उपपत्रिका

उपपत्रिका

१

पत्रिकाकार... अक्षर

पत्रिकाकार... अक्षर

१०३



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्त ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका १५

3

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

11737317 70 100 11737317
11737317 100 11737317 100

०२५०० ५० ०००० ०० ००००
०० ००००० ०० ०००० ००००

०००००००० ०० ०००० ०००००
००००००० ०० ०००००० ०००

००००००००० ०००० ०० ०००
००० ०००० ०००० ०००० ०००

२

०००००० ००००० ०००००
०००० ००००० ००००००० ००००० ००००००
०००००० ००००००००० ००००० ०००००० ०००० ०००००
०००००० ००००००००० ०००००००० ००००० ०००००
००० ००००००० ००००० ००००० ०००००
००००००००० ००० ०००० ००००० ००००००
००००००००, ००००००००० ०००००० ००००००० ००००००
००० ०००००

००००० ०००००००००

०००००० ०० ०००० ००००० ०००००
००००० ००००० ००००० ०००००
००००० ०००००० ०००० ०००० ००
०००००० ०००००००० ०००० ००

००० ०००००००० ०० ०००० ०००
०००००० ०००००० ००० ०००००
००० ००००० ००० ००००००
००००० ०० ०००००००००० ०००

००० ० ००००००००० ००००० ०००००००
००००० ०००००००० ००००० ०००००० ००
००० ० ००००० ०० ००००० ०००



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

माधुमिह

चरकृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 १. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 २. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ३. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ४. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ५. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

१. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 २. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

३. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ४. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ५. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ६. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ७. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ८. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 ९. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 १०. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

पुस्तक विभाग, बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
बिदेह अथय यैथिनी पाञ्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

२

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१
१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१

१.०१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X VIDEHA

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

२

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

३

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

२

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

गान्धी

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

द्वितीय अंक अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

३

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

४

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२

१२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२ अंक १२



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

जि ह्येव भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र
तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र

भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति

भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र

भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र
तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति

भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति

भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति
भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति तत्र भवति



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१५ १५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५ १५

१५ १५

१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५ १५

१५ १५ १५ १५

१५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५
१५ १५ १५ १५ १५



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

बि ए रू मिहे विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह अथय यैथिनी
पाक्षिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
मानवीसिंह सरस्वत
<http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

बि ए रू मिहे विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह अथय यैथिनी
पाक्षिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
मानवीसिंह सरस्वत
<http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

४९९०४४

बिहार विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

४११०४४

१

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००

१०००० १०००० १०००० १०००० १००००



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

पुस्तक लेखक के नामों को ध्यान में रखते हुए
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
अनुसंधान के लिए प्रकाशक के पास भेजना चाहिए।
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

२
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

लेखक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी

प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी
प्रकाशक के नाम के साथ ही प्रकाशक के पता को भी



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

माननीय सरकारी

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११
 (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
 माननीय सरकारी
 ISSN 2229-547X VIDEHA



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

१. विदेह पत्रिका के सम्पादन कार्यालय का पता निम्न है -
विदेह पत्रिका
विदेह पत्रिका

२. विदेह पत्रिका के सम्पादन कार्यालय का पता निम्न है -
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार

३. विदेह पत्रिका के सम्पादन कार्यालय का पता निम्न है -
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार

४. विदेह पत्रिका के सम्पादन कार्यालय का पता निम्न है -
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार

५. विदेह पत्रिका के सम्पादन कार्यालय का पता निम्न है -
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार
विदेह पत्रिका, बिदेह, बिहार



१.०० "बिहारी मिहिर" १.०० १.०० १.००
 बिहारी मिहिर १.००
 १.०० "बिहारी मिहिर" १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.००

२

१.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.००

१.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००
 १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.०० १.००



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

खंक्राम ISSN 2229-547X VIDEHA

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

3

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३

बि.सं. १८७७.१.१७३३



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२ <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

अक्षर मन्त्रालयक तः प्रकृतः निर्देशः
मार्ग निर्देशः प्रकृतः निर्देशः
अक्षर मन्त्रालयक तः प्रकृतः निर्देशः
प्रकृतः, प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
निर्देशः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः, प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
निर्देशः

२

प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः
प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः प्रकृतः



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय संस्कृतम्

२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

३ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११

४ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११

५ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११

६ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११

७ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११

८ म अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११
अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in> **मानवीविह संस्कृतम्**
ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिन्दु बिदेह बिदेह बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२ <http://www.videha.co.in>)

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

०८८ ४३. १३१६ १८८० १३० ०८८ ५
०८८ ४३. १० ०८ ०८८१ १८८० १३०८ ०८८ १०८८
०८८ ०८ ५५

२

०८८ ०११०१ ०८८० १३१६ ०८८००००० ०११०१
०८८ ०८००००० ०८१०००० ०८० ०८०० १०१००
१०००० ०८००११० ०८१००००
०८१

०८१ ०८००० १०००० ०८१ १०१००००
१०११ ०८०० ०८००
०८१ १०१००० ०८०००
०८१ ०८००० ०८०
०८ १००० १०१०००
०८१ ०८००० १०००० ०८१ १०१००००

०८१ ०८ ०८०० १०१६
०८० १०११, १०१६
०८० ०८१ १०१० १०१००० १०१०००
१०१६ १०१००० १० ०८०० १०००
०८१ ०८००० १०००० ०८१ १०१००००

०८१ १०१०० १०११, ०८१००, १०,
१०१० ०८०० ०८००
०८०० १०, १० १०१०
०८००००११ १०१० ० ०८००० ०८०००
०८०० ०८००० १०१००
०८०० ०८०० ०८० १०१०,
१०१०००११०० ०८००० १०१० ०८०
०८०० ०८००० ०८० ०८००००० १०१० ०८०
०८०१ ०८००० ०८००० १०१००००
०८ ०८००० ०८००० १०१०, १०१, ०८०००
१०००० ०८०० ०८०० ०८०० ०८००००
०८१ ०८००० १०००० ०८१ १०१००००

१०१००० ०८१,
०८०० ०८००० ०८०००



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरेन्का

ISSN 2229-547X VIDEHA

बिदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह

बिदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक

४०

विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक

विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक

विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक

विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक
विदेह अथय यैथिनी पात्रिक



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सर्वकृष्ण

ISSN 2229-547X VIDEHA

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११

१५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृतम् २०११ अंक १२

IR II

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम्

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम्

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२

संस्कृतम् २०११ अंक १२



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृतम् विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका
संस्कृतम् विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका
संस्कृतम् विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका
संस्कृतम् विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका

॥
॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥

॥

॥

॥

॥

१

॥

॥

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



गान्धीविह

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथय दैशिनौ पाश्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानसीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

२

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् **ISSN 2229-547X VIDEHA**



मानसिंह

::

::

::

::

::

::

::

::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili*
Fortnightly e Magazine बिदेह अथय दैशिनौ पाश्चिक 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानसीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA



वैद्यकीय विभाग, विदेह
विदेह, अन्तर्गत, विदेह अन्तर्गत विदेह

विदेह, अन्तर्गत, विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह

॥

विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह

विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह

॥

विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह

विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह

विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह
विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह अन्तर्गत विदेह



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

१० नवम्बर २०११

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



१२२ म अंक १५ अक्टूबर २०११ म बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१३ म अंक १६ अक्टूबर २०११ म बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

बिदेह पत्रिका

बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका

बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका
बिदेह पत्रिका

२३ म अंक १७ अक्टूबर २०११ म बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

३४ म अंक १८ अक्टूबर २०११ म बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

४५ म अंक १९ अक्टूबर २०११ म बिदेह पत्रिका बिदेह प्रथम यैथिनी पत्रिका 'बिदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



१२.
... ..

१३.
... ..
... ..
... ..

१४.
... ..
... ..

१५.
... ..
... ..

१६.
... ..
... ..
... ..

१७.
... ..

१८.
... ..

१९.
... ..



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका बिदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- २ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३३ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३४ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३५ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३६ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३७ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३८ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३९ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २० म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २१ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २२ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २३ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २४ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २५ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २६ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २७ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २८ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- २९ म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५
- ३० म अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५ अंक १५



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३१. ...
- ३२. ...
- ३३. ...
- ३४. ...
- ३५. ...
- ३६. ...
- ३७. ...
- ३८. ...
- ३९. ...
- ४०. ...
- ४१. ...
- ४२. ...
- ४३. ...
- ४४. ...
- ४५. ...
- ४६. ...
- ४७. ...
- ४८. ...
- ४९. ...



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वती

- ७१ :
पत्रिका
- ७२ :
पत्रिका
- ७३ :
पत्रिका
- ७४ :
पत्रिका
- ७५ :
पत्रिका
- ७६ :
पत्रिका
- ७७ :
पत्रिका
- ७८ :
पत्रिका
- ७९ :
पत्रिका
- ८० :
पत्रिका
- ८१ :
पत्रिका
- ८२ :
पत्रिका
- ८३ :
पत्रिका
- ८४ :
पत्रिका
- ८५ :
पत्रिका
- ८६ :
पत्रिका
- ८७ :
पत्रिका
- ८८ :
पत्रिका
- ८९ :
पत्रिका



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानसमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१० : पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

११ : पत्रिका पत्रिका

१२ : पत्रिका पत्रिका

१३ : पत्रिका

१४ : पत्रिका पत्रिका - पत्रिका

१५ : पत्रिका पत्रिका

१६ :

पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

१७ : पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

१८ : पत्रिका

१९ : पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

२०० : पत्रिका पत्रिका

२०१ :

पत्रिका पत्रिका

२०२ : पत्रिका पत्रिका

२०३ :

पत्रिका

२०४ : पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

२०५ :

पत्रिका

२०६ : पत्रिका पत्रिका - पत्रिका

२०७ : पत्रिका पत्रिका पत्रिका पत्रिका

२०८ :

पत्रिका पत्रिका

२०९ :

पत्रिका पत्रिका



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- ११० : [unclear] [unclear] [unclear]
- १११ : [unclear] [unclear]
- ११२ : [unclear] [unclear] [unclear]
- ११३ : [unclear]
- ११४ : [unclear]
- ११५ : [unclear] [unclear] [unclear]
- ११६ : [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
- ११७ : [unclear] [unclear]
- ११८ : [unclear]
- ११९ : [unclear] [unclear] [unclear]
- १२० : [unclear]
- १२१ : [unclear]
- १२२ : [unclear] [unclear] [unclear]
- १२३ : [unclear]
- १२४ : [unclear]
- १२५ : [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
- १२६ : [unclear] [unclear] [unclear]
- १२७ : [unclear] [unclear]
- १२८ : [unclear] [unclear]



- १२९
- १३०
- १३१
- १३२
- १३३
- १३४
- १३५
- १३६
- १३७
- १३८
- १३९
- १४०
- १४१
- १४२
- १४३
- १४४
- १४५



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३६५ : ...
- ३६६ : ...
- ३६७ : ...
- ३६८ : ...
- ३६९ : ...
- ३७० : ...
- ३७१ : ...
- ३७२ : ...
- ३७३ : ...
- ३७४ : ...
- ३७५ : ...
- ३७६ : ...
- ३७७ : ...
- ३७८ : ...
- ३७९ : ...
- ३८० : ...
- ३८१ : ...
- ३८२ : ...
- ३८३ : ...
- ३८४ : ...



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

- १८५ प. १११-११२
- १८६ प. ११३-११४
- १८७ प. ११५-११६
- १८८ प. ११७-११८
- १८९ प. ११९-१२०
- १९० प. १२१-१२२
- १९१ प. १२३-१२४
- १९२ प. १२५-१२६
- १९३ प. १२७-१२८
- १९४ प. १२९-१३०
- १९५ प. १३१-१३२
- १९६ प. १३३-१३४
- १९७ प. १३५-१३६
- १९८ प. १३७-१३८
- १९९ प. १३९-१४०
- २०० प. १४१-१४२
- २०१ प. १४३-१४४
- २०२ प. १४५-१४६
- २०३ प. १४७-१४८



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- २०४
- २०५
- २०६
- २०७
- २०८
- २०९
- २१०
- २११
- २१२
- २१३
- २१४
- २१५
- २१६
- २१७
- २१८
- २१९
- २२०
- २२१
- २२२
- २२३
- २२४
- २२५



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

- २२६ ...
- २२७ ...
- २२८ ...
- २२९ ...
- २३० ...
- २३१ ...
- २३२ ...
- २३३ ...
- २३४ ...
- २३५ ...
- २३६ ...
- २३७ ...
- २३८ ...
- २३९ ...
- २४० ...
- २४१ ...
- २४२ ...
- २४३ ...
- २४४ ...
- २४५ ...
- २४६ ...
- २४७ ...



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- २४८
- २४९
- २५०
- २५१
- २५२
- २५३
- २५४
- २५५
- २५६
- २५७
- २५८
- २५९
- २६०
- २६१
- २६२
- २६३
- २६४
- २६५
- २६६
- २६७
- २६८



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

- २६९ ...
२७० ...
२७१ ...
२७२ ...
२७३ ...
२७४ ...
२७५ ...
२७६ ...
२७७ ...
२७८ ...
२७९ ...
२८० ...
२८१ ...
२८२ ...
२८३ ...
२८४ ...
२८५ ...
२८६ ...
२८७ ...
२८८ ...
२८९ ...
२९० ...
२९१ ...
२९२ ...
२९३ ...
२९४ ...
२९५ ...
२९६ ...
२९७ ...
२९८ ...
२९९ ...
३०० ...



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

खंक्राम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

२८९ म अंक १५ अक्टूबर

२९० म अंक १५ अक्टूबर

२९१ म

१० १०० १००० १००० १००० १०००

२९२ म अंक १५ अक्टूबर

२९३ म अंक १५ अक्टूबर

२९४ म अंक १५ अक्टूबर

२९५ म अंक १५ अक्टूबर

२९६ म अंक १५ अक्टूबर

२९७ म अंक १५ अक्टूबर

२९८ म अंक १५ अक्टूबर

२९९ म अंक १५ अक्टूबर

३०० म

३०१ म अंक १५ अक्टूबर

३०२ म अंक १५ अक्टूबर

३०३ म अंक १५ अक्टूबर

३०४ म अंक १५ अक्टूबर

३०५ म अंक १५ अक्टूबर

३०६ म अंक १५ अक्टूबर

३०७ म अंक १५ अक्टूबर

३०८ म अंक १५ अक्टूबर

३०९ म अंक १५ अक्टूबर

३१० म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३०६
- ३०७
- ३०८
- ३०९
- ३१०
- ३११
- ३१२
- ३१३
- ३१४
- ३१५
- ३१६
- ३१७

१४१९

॥
॥
॥

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पश्चिम ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



गान्धीमिह

बि ए रू विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथय दैशिनौ पाश्चिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसीविह संस्कृतम्

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पारिभाषिक ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



मानवीय

:: ::

:: :: ::

:: :: ::

:: :: ::

:: :: ::

:: ::

:: ::

::

::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथय दैशिनौ पाश्चिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पश्चिम ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम यैथिनी पश्चिम ई पत्रिका 'विदेह' ९२ म अंक १५ अक्टूबर

२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक ९२) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



मानवीय



१. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका
विदेह अथय मेषिनी पारिभाषिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

३. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

४. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

५. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

६. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

७. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

८. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

९. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका

१०. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका



८. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

९. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१०. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

११. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१२. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१३. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१४. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१५. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१६. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

१७. विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

१८ म अंक १५ अक्टूबर २०११

१९ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२० म अंक १५ अक्टूबर २०११

२१ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२२ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२३ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२४ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२५ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२६ म अंक १५ अक्टूबर २०११

२७ म अंक १५ अक्टूबर २०११

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* बिदेह अथय दैशिनो पाश्चिक 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीसिंह सरस्वत

६९२

१ २ ३ ४



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२० नवंबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२१ नवंबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२२ नवंबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२३ नवंबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२४ नवंबर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका

२५ नवंबर २०११



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

२०११-१२-१५ अंक १२-१५ अक्टूबर २०११

२५ अक्टूबर २०११-१५ अक्टूबर २०११

२६ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

२७ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

२८ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

२९ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३० अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३१ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३२ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३३ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३४ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३५ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३६ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३७ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३८ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११

३९ अक्टूबर २०११-३१ अक्टूबर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३५ ...
- ३६ ...
- ३७ ...
- ३८ ...
- ३९ ...
- ४० ...
- ४१ ...
- ४२ ...
- ४३ ...
- ४४ ...



(वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

४३ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४४ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४५ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४६ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४७ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४८ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४९ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

५० नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

५१ नवम्बर २०११ अंक १२ विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका



२०११ (वर्ष ४ मास ४६ अंक १२) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

खंक्रान्तम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- ६८ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ६९ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ७० नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ७१ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ७२ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ७३ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर
- ७४ नवम्बर, २०११ अंक १२ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका 'विदेह' १२ म अंक १५ अक्टूबर

